

Sharda Motor Industries Ltd.

SMIL: LISTING: 23-24/2208 22nd August, 2023

BSE Limited

Department of Corporate Services
Pheroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai - 400 001

(SCRIP CODE - 535602)

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, 5th Floor

Plot No. C/1, G Block

Bandra - Kurla Complex, Mumbai - 400 051

(Symbol - SHARDAMOTR) (Series - EQ)

<u>Subject: - Submission of Copy of Newspaper Advertisement</u>

<u>Ref: Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations,</u>

2015

Dear Sir/ Madam,

With reference to the captioned subject, please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisement dated Tuesday, 22nd August, 2023 published in Financial Express (English Language) and Vir Arjun (Hindi Regional Language).

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For Sharda Motor Industries Limited

Iti Goyal
Assistant Company Secretary
& Compliance Officer

Encl. as above

Regd. Office: D-188, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi - 110 020 (INDIA)

Tel.: 91-11-47334100, Fax: 91-11-26811676

E-mail: smil@shardamotor.com, Website: www.shardamotor.com

CIN NO-L74899DL1986PLC023202

बाराइक और समिरूल इस्लाम

शामिल हैं। डेरेक, सेन, इस्लाम

ने उच्च सदन की सदस्यता की

शपथ ली. उनमें से पांच पहली बार

निर्वाचित होकर उच्च सदन में

पहुंचे हैं। इनमें नागेन्द्र राय, काश

चिक बाराइक, समिरूल इस्लाम,

केसरीदेवसिंह दिग्विजय सिंह

झाला और बाबभाई जेसांगभाई

देसाई शामिल हैं। राज्यसभा

सचिवालय के बयान के अनसार.

पांच सदस्यों ने बांग्ला में, तीन ने

हिन्दी में और दो ने अंग्रेजी में

शपथ ली। इस अवसर पर उच्च

सदन के नेता एवं वाणिज्य मंत्री

पीयूष गोयल, राज्यसभा के

सभापति पी सी मोदी एवं अन्य

विशेषाधिकार एवं आचार शाखा की

स्चना के अनुसार, विशेषाधिकार

समिति के एजेंडे में कहा गया है,

सांसद (अधीर रंजन चौधरी) का

मौखिक साक्ष्य 30 अगस्त 2023

को होगा। समिति की 18 अगस्त

को हुई बैठक में एक आम राय बनी

थी कि स्वाभाविक न्याय के सिद्धांत

के तहत उन्हें (अधीर रंजन चौधरी)

अपना पक्ष रखने का मौका दिया

रेलगाडी सं. 09334

आगमन प्रस्थान

आगमन

20:15

07:30

21:00

रेलगाड़ी सं. 09332

अधिकारी उपस्थित थे।

विशेषाधिकार समिति ने 30 को अधीर रंजन

चौधरी को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया

विशेष रेलगाड़ियों का संचालन

नाग पंचमी और श्रावण सोमवार त्यौहार-2023 के उपरांत रेलयात्रियों

सुपरफास्ट विशेष रेलगाड़ी (दो फेरे)

स्टेशन

डॉ. अम्बेडकर नगर

नई दिल्ली

चलने के दिन: 09333 डॉ. अम्बेडकर नगर से दिनांक 22.08.2023 (मंगलवार

ठहराव : इंदौर, देवास, उज्जैन, नागदा, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी,

09332 नई दिल्ली-इंदौर सुपरफास्ट

विशेष रेलगाड़ी (एक फेरा)

चलने के दिन: 09332 नई दिल्ली से दिनांक 22.08.2023 (मंगलवार) को।

ठहराव : मथुरा, भरतपुर, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, कोटा, नागदा, उज्जैन और

उपरोक्त रेलगाडियों के मार्ग में आने वाले ठहरावों और

रेलगाड़ी पूछताछ वेबसाइट www.enquiry.indianrail.gov.in देखें ।

🗃 🛛 🗵 पर हमें फॉलो करें

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ

उत्तर रेलवे

सदैव आपकी सेवा में

ाणी के लिए कपया रेलमदद हेल्पलाइन नं. 139 डायल करे

स्थान:— प्रथम वाता., 2 टियर वाता., शयनयान एवं सामान्य।

प्रस्थान

07:30

रेलमदद वेबसाइट देखें:--

www.railmadad.indianrailways.gov.in

रेलमदद ऐप डाउनलोड करें

को और 09334 नई दिल्ली से दिनांक 23.08.2023 (बुधवार) को।

स्थान:– 2 टियर वाता., 3 टियर वाता, शयनयान एवं सामान्य।

नई दिल्ली, (विप्र)। संसद की

विशेषाधिकार समिति ने कांग्रेस नेता

अधीर रंजन चौधरी की लोकसभा में

की गई कुछ टिप्पणियों एवं आचरण

को लेकर उन्हें सदन की कार्यवाही

से निलंबित करने के मामले में अपना

पक्ष रखने के लिए 30 अगस्त को

बुलाया है। इस मामले पर

विशेषाधिकार समिति ने 18 अगस्त

लोकसभा सचिवालय की

को विचार किया था।

रेलगाडी सं. 09333

आगमन प्रस्थान

15:30

भरतपर और मथरा स्टेशन।

स्टेशन

नई दिल्ली

इंदौर

सोमवार को जिन नौ सदस्यों

और रे ने बांग्ला में शपथ ली।

राज्यसभा के नौ सदस्यों ने सदस्यता की शपथ ली

विशेष प्रतिनिधि

नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित नौ सांसदों ने सोमवार को राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। राज्यसभा सचिवालय से जारी एक बयान के अनुसार राज्यसभा कक्ष में उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों को शपथ दिलायी।

जयशंकर ने अंग्रेजी में शपथ ली। राज्यसभा सदस्य के रूप में यह उनका दुसरा कार्यकाल है। वह पहली बार वर्ष 2019 में निर्वाचित हए थे। जयशंकर के अलावा राज्यसभा की सदस्यता की शपथ

In The Court of Ms. Malhotra Divva Administrative Civil Judge Addl. Rent Controller (North-West) Room No. 216, Second Floor, Rohini Courts, Delhi.

SCC No.116/2023 NDOH: 09.11.2023 Suneeta

DDA Suneeta S/o Late Hari Ram Yadav, R/o H. No. D-9, Mahavir Vihar, Kanjhawala, Delhi-110081.

 $\mathbf{V}\mathbf{s}$

V/S State & Ors.

For Succession Certificate Under Succession Act-1925 All Concerned

Whereas in the above noted petition the applicant petitioner have applied for Succession Certificate from the Hon'ble court under section 372 of the Indian Succession Act-1925 in respect of the amount & assets which is lying in the name of the deceased Late Sh. Hari Ram Yadav, who was expired on 06.02.2023. Whereas 09/11/2023 at 10

O'clock in the forenoon has been fixed for hearing or the publication notice is hereby given to all concerned to file their objection if any given under my hand and seal of the court this on 04/08/2023. Seal Sd/-

Admn. Civil Judge-Cum ARC (N/W) Rohni Courts Delhi.



शपथ ग्रहण से पर्व राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड व विदेश मंत्री एस जयशंकर एक-द्सरे का अभिवादन करते हुए। (एएनआई)

लेने वाले भारतीय जनता पार्टी In The Court of सदस्यों में बाबुभाई जेसांगभाई Malhotra. देसाई (गुजरात), केसरीदेवसिंह Administrative Civil Judge/ दिग्विजय सिंह झाला (गुजरात) Addl. Rent Controller (North-West) Room No. और नागेन्द्र राय (पश्चिम बंगाल) 216, Second Floor, Rohini शामिल हैं। इसके अलावा तृणम्ल कांग्रेस के पांच सांसदों ने भी उच्च

SCC No.08/2023 NDOH:11.09.2023

Ashish Kapoor $\mathbf{v}_{\mathbf{s}}$

Divva

Courts, Delhi.

State Ashish Kapoor, S/o Late Sh. Prakhar Buddhi Kapoor, R/c H. No. KP-297, Maurya Enclave, Pitampura, Delhi.

> V/S State & Ors.

For Succession Certificat Under Succession Act-1925 All Concerned

Whereas in the above noted petition the applicant petitioner have applied for Succession Certificate from the Hon'ble court under section 372 of the Indian Succession Act-1925 in respect of the amount & assets which is lying in the expired on 23.06.1997.

Whereas 11/09/2023 at 10 O'clock in the forenoon has been fixed for hearing or the publication notice is hereby given to all concerned to file their objection if any given under my hand and seal of the court this on 08/08/2023.

भारत में कोरोना के 54 सदन के सदस्य के रूप में शपथ नए मामले ली। इनमें डेरेक ओब्रायन, डोला सेन, सुखेन्दु शेखर रे, प्रकाश चिक

नई दिल्ली, (विप्र)। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 54 नये मामले सामने आए और उपचाराधीन मरीजों की कुल संख्या 1,475 हो गई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार को सुबह आठ बजे जारी अद्यतन आंकडों के अनुसार, कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक से 5,31,926 मरीजों की मौत हो चकी है। अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 4,49,96,653 है।

स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, संक्रमण से उबर चुके लोगों की संख्या बढकर 4,44,63,252 हो गई है। देश में कोविड-19 संक्रमण से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर 98.81 प्रतिशत और मृत्यु दर 1.18 प्रतिशत दर्ज की गयी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, भारत में अभी तक कोविड-19 के टीकों की 220.67 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं।

In The Court of Mayank Mittal, Administrative Civil Judge-Cum-Commercial Civil Judge-Cum-Addl. Rant Controller, Room No. 23, Ist Courts, Delhi.

For Succession Certificate Under Indian Succession Act, 1925

Petition No. Succession Court/79/2023

N.D.O.H. 17.10.2023 Smt. Monika W/o Late Ravi D/o Sh. Bhagwan Dass, R/o H. No.31/38, Trilokpuri, Delhi-110091.

Also At: Presently At-H. No 31/38, Trilokpuri, Delhi-110091Petitioner V/s

The State & Ors.Respondent

All Concerned.

Whereas in the above noted Petition the applicant/ petitioner has applied for Succession Certificate to the Hon'ble Court Under Section 372 of the Indian Succession Act, 1925 in respect of the debts, and Securities and all service benefits to be standing in the name of Late

Sh. Ravi (Deceased). Whereas the 17/10/2023 at 10' o clock in the forenoon has been fixed for hearing or the publication notice is hereby given to all concerned to file their objection if any. Given under my hand and the seal of the court, this 17th day of August, 2023.

Sd/ **Administrate Civil** Judge, Cum-Commercial Civil Judge-Cum-Addl. Rent Controller (East), Karkardooma Courts, Delhi.

Publication **Proclamation Requiring Attendance of Defendant** (Order 5, Rule 20 of The **Code of Civil Procedure**) In The Court of

Sh. Surender Mohit Singh,

Additional DistrictJudge-04, (North), Court Room No.407, Rohini Courts Delhi. CS DJ- 81/2018

State Bank of India

....(Plaintiff) Against

Sidhakar Ram(Defendant)

Defendants:-Sudhakar Ram S/o Ram Murat Ram, C/o G-194,

CRPF, Disgn.-CT Force No. 035024706, Bawana, Delhi-110039. Also At: C/o Officer Commanding, G-194, CRPF,

Bawana, Delhi-110039. Also At-Village Nusawa, PO.-Haraora Tehsil, Mehnagar, PS-Tarwan,

Distt.-Azamgarh, UP-276126. Whereas

intentionally evading service of summons it is hereby notified that if you shall not defend the case on the 17th day of October, 2023 at 10:00 am fixed for the final disposal, it will be heard and determined ex-parte.

Given under my hand and the seal of the court, this **09**th **day** of August, 2023.

लूना-25 की नाकामी का चंद्रयान-3 पर असर नहीं : इसरो कांग्रेस ने सनी देओल के बंगले की नीलामी का नोटिस वापस

बेंगलुरु, (भाषा)। रूस के 3 मिशन) योजना के मृताबिक आगे

के अनुसार होगा। हम उम्मीद कर

रहे हैं कि इस बार ाचंद्रयान-21 के

उलट यह ासतह पर उतरने में। सफल

माधवन नायर ने कुछ हलकों में हो

रही इस चर्चा को खारिज कर दिया

कि भारत और रूस चंद्रमा पर

पहुंचने की दौड़ में शामिल हैं। उन्होंने

कहा कि लूना-25 का दुर्घटनाग्रस्त

होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा, मैं

ालैंडरा मॉड्यूल के बारे में जानता हूं।

यह 2008 में तैयार हो गया था। जब

मैंने प्रयोगशाला रूस में। का दौरा

किया था, उन्होंने मुझे मॉड्युल

दिखाया था। उनके पास उस वक्त

उसे मिशन पर भेजने के लिए

संसाधन नहीं थे।, इसलिए इसे लंबे

समय तक ठंडे बस्ते में रखा गया था।

आत्मनिर्भर है और हम हम उन पर

7230 सेट

3518 नग

03 नग

3755 नग

98059 लीटर 25-09-23

2063 नग 25-09-23

2588/2023

Date: 05.06.2023

RESPONDENT

25-09-23

06-10-23

(रूस पर) निर्भर नहीं हैं।

भारत के राष्ट्रपति की ओर से प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबन्धक उत्तर रेलवे नई दिल्ली—11,0001 द्वारा इच्छुक फर्मों से निम्नलिखित मदों के लिये ई— निविदा

इसरो के पूर्व अध्यक्ष जी

लुना-25 चंद्र मिशन की नाकामी बढ रहा। यह ासॉफ्ट लैंडिंगा योजना

का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान

संगठन (इसरो) के चंद्रयान-3

अभियान पर कोई असर नहीं

पडेगा। भारत के शीर्ष अंतरिक्ष

वैज्ञानिकों ने यह जानकारी दी।

रूस की अंतरिक्ष एजेंसी

रोस्कोसमोस ने रविवार को एक

बयान में कहा कि अनियंत्रित कक्षा

में प्रवेश करने के बाद लुना-25

चंद्रयान-2 मिशन को 2019 में

भेजे जाने के समय इसरो प्रमख रहे

के. सिवन ने सोमवार को पीटीआई-

भाषा से कहा, इसका कोई असर

नहीं पड़ेगा। उनसे यह पूछा गया था

कि रूसी मिशन की नाकामी के बाद

क्या इसरो सॉफ्ट लैंडिंग से पहले

अतिरिक्त दबाव में है। इसरो ने

रविवार को कहा था कि चंद्रयान-3

मिशन का लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की

सतह पर बुधवार शाम करीब छह

बजकर चार मिनट पर उतरने वाला

है। सिवन ने कहा, यह (चंद्रयान-

आमंत्रित की जाती है

06 07233479

TA No. 85/2022

ALLAHABAD BANK

DEFENDANT

क्र0 निविदा सं0 संक्षिप्त विवरण

02 09233060 पी य बस्सेड जनटैन ब्ल

03 07230305A व्हील सेट अर्थिंग इक्विपमें

05 | 15225019A सेल्फ प्रोपेल्ड टनल रेस्क्य टैन

04 07230089B इंजेक्शन मोल्डेड थर्माप्लास्टिक पॉलीस्टर

(एसपी - टी आर टी)

टेंडर नोटिस सं0 45 / 2023-2024 दिनांक 21.08.2023

Fribunal (Procedure Rule) 1993) in the matter of

M/S GANPATI TEXTILES COMPANY & ORS.

MR. ATUL KUMAR GOEL (PROPRIETOR)

होस कनेक्शन 650 एम एम लांग फॉर

निविदा शर्तें — 1. विस्तृत जानकारी IREPS वेबसाइट यानी www.ireps.gov.in पर देखी जा सकती हैं I 2. मैनुअल निविदा स्वीकृत नहीं

Notice under Section 19 (4) of the Recovery of Debts Due to Bank and

VERSUS

Financial Institutions Act 1993 read with rule 12 & 13 of the Debts Reco

M/S GANPATI TEXTILES COMPANY (BORROWER)

MR. BRAHAM PARKASH GOEL (GUARANTOR)

ALSO AT: B-84, 1ST FLOOR SECT.-6 NOIDA UP-201301

THROUGH ITS PROPRIETOR-MR. ATUL KUMAR GOEL

ALL AT: 18/22, WEA, $1^{\rm st}$ FLOOR SWAGAT HOUSE KAROL BAGH NEW DELHI-05

ALSO AT: GF-5/250 SECT.-5 VAISHALI GHAZIABAD UP

ALSO AT: 28, 2^{ND} FLOOR RAMPRASTHA GREEN SECT.-7 VAISHALI GHAZIABAD UP

Whereas the above named applicant (s) has / have instituted a case for

recovery of Rs. 1,07,11,761/- (RUPEE ONE CRORE SEVEN LAKH ELEVEN THOUSAND SEVEN HUNDRED SIXTY ONE ONLY)

against you and where as it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you in the ordinary way therefore.

this notice is given by advertisement directing you to make appearance in

Take notice that in default of your appearance on the day before the nentioned, the case will be heard and determined in your absence.

All the matters will be taken up through video Conferencing and for

(I) All the Advocates/Litigants shall download the "Cisco Webex

(II) "Meeting ID" and Password for the date of hearing qua cases to be

(III) In any exigency qua that the Advocate/Litigants can contact the concerned official at Ph. No. 23748478.

taken by Hon'ble Presiding Officer/ Registrar shall be displayed in the daily cause list itself at DRT Official Portal i.e. drt.gov.in

Given under my hand and seal of the Tribunal this the 5TH day of

BY ORDER OF THE TRIBUNAL

ASSISTANT REGISTRAR DRT-II, DELHI

01 09232578 होस असेंबर्ल

अंतरिक्ष यान चंद्रमा

लिए जाने पर सवाल उठाए

नई दिल्ली, (वीअ)। कांग्रेस ने बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद और अभिनेता सनी देओल के बंगले की ई-नीलामी संबंधी नोटिस को कथित तौर पर वापस लिए जाने को लेकर सोमवार को सवाल खड़े किए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने पूछा कि आखिर तकनीकी कारणों का हवाला देने के लिए बैंक को किसने प्रेरित किया? रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, दोपहर को देश को पता चला कि बैंक ऑफ बडौदा ने भाजपा सांसद सनी देओल के जुहू स्थित आवास को ई-नीलामी के लिए रखा है, क्योंकि उन्होंने बैंक को 56 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया है।

चंद्रयान-3 मिशन पर इसका कोई असर पड़ने की संभावना से इनकार करते हुए नायर ने कहा कि भारत वर्गीकृत विज्ञापन का यह मिशन पूरी तरह से

Change of Name

I. Gaurav Goel S/o Shri Pardeep Goel R/o Plot No. 66-67, Pocket-3, Upper Ground floor. Sector-22. Rohini, Delhi-110085 do hereby declare that I am the holder of LIC Policy Number 330940246. That in my said policy my name has written as Aniket Goyal and in my Aadhar Card my name has mentioned as Gauray Goel. That both names Aniket Goyal and Gaurav Goel are the names of one and same

person i.e. myself. C-32115 I, Harjinder Singh Saini S/o

Swaran Singh R/o P-29, Naveen Shahdara, Delhi-110032 do declare that I have changed my name from Harjinder Singh Saini to Harjinder Singh for all future purposes. That Harjinder Singh Saini and Harjinder Singh are one and the same

C-32111 I, Asha Devi W/o Om Kumar R/o H. No. 6, Pocket-13, Sector-22, Rohini, Delhi-110086 do declare that Asha Devi and Asha Rani is one and person that my real name

I, Pushpa alias Pushpa Pal D/o Hori Lal W/o Late Rakesh Pal, R/o RZM-19, M Block. Gali No. 1, Vijay Enclave, Delhi-110045, do hereby declare that Pushpa and the Pushpa Pal is the name of one and the same person. After publication

में, मुरारी मोहन मिश्रा पुत्र इन्द्र कान्त मिश्रा निवासी ए-143, हरी नगर एक्स., जैतपुर, दक्षिण दिल्ली–44, का निवासी हूं। मेरी पुत्री माला के स्कूल दाखिले में मेरा नाम गलती से मुरारी मिश्रा हो गया है। मेरा सही नाम मुरारी मोहन मिश्रा है। मुझे मेरे सही

C-32116 मैं, डा. अनिल सामोता पुत्र स्व. श्री मुख्तियार सिंह निवासी ए-II / 503, परम अपार्टमेंट्स प्लॉट नं. 27, सेक्टर -6, द्वारका, नई दिल्ली-110075 एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि अनिल कुमार, अनिल सामोता, डा. अनिल सामोता तथा अनिल कुमार सामोता एक ही व्यक्ति अर्थात मेरे ही नाम है। भविष्य में सभी उद्देश्यों के लिए मुझे डा. अनिल सामोता के नाम

मैं, राजा भगत पुत्र योगेन्दर भगत निवासी ई-158, पहला फ्लोर, गली नं. 06, हरी नगर विस्तार, बदरपुर, नई दिल्ली-110044 मेरी पुत्री रिया कुमारी का स्कूल दाखिले के समय गलती से रिया हो गया, जबकि सही नाम रिया कुमारी है और मेरा नाम राजा भगत है, गलती से राजा गुप्ता हो गया है। हम दोनों को सही नाम से जाना C-32116

प्रकाशित किसी उत्पाद या सेवा के पड़ताल कर लें। यह समाचार पत्र उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता आदि के उपरोक्त विज्ञापनों के बारे में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

की अधिक संख्या को देखते हुए रेलवे द्वारा निम्नलिखित विशेष name of the deceased Late रेलगाड़ियां निम्न समय–सारणी के अनुसार संचालित की जाएगी:– Smt. Asha Kapoor, who was 09333/09334 डॉ. अम्बेडकर नगर-नई दिल्ली-डॉ. अम्बेडकर नगर

Seal Sd/ Admn. Civil Judge-Cum ARC (N/W) Rohni Courts Delhi.

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि.

अल्पकालीन ई—निविदा सं. 85 / डब्लू / 2023—24:—वि.वि.उप.खं. अम्बैहटा वे कार्यक्षेत्र में 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र सलारपुर पर स्थापित 01 नं. 05 एम वी ए परिर्वतक क्षतिग्रस्त को बदलने एवं संबंधित कार्य। धरोहर राशि रु 1500 00 (एक हजार पांच सौ रुपये मात्र)। 2. अल्पकालीन ई—निविदा सं. 86 / डब्लू / 2023-24:-वि.वि.खं. नकुड के कार्यक्षेत्र में विभिन्न क्षमता के स्थापित क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को बदलने का कार्य। धरोहर राशि रु. 2000.00 (दो हजार रुपये मात्र) अल्पकालीन ई—निविदा सं. 87 / डब्लू / 2023—24:—वि.वि.खंड. नकुड कार्यक्षेत्र में पूर्ण जमा योजना के अंतर्गत संयोजन निर्गत करने का कार्य। धरोहः राशि रु. 1800.00 (एक हजार आठ सौ रुपये मात्र)। 4. अल्पकालीन ई—निविदा सं. ८८ / डब्लू / २०२३–२४:–वि.वि.उप.खं. आई.टी.आई. के कार्यक्षेत्र में पूर्ण जमा योजना के अंतर्गत 11 केवी लाईन को शिफ्ट करने का कार्य। धरोहर राशि र 6600.00 (छः हजार छः सौ रुपये मात्र)। उपरोक्त अल्पकालीन ई–निविदाएं की खुलने की दिनांक 06.09.2023 को 13.00 बजे तक जमा की जायेगी तथा इनका प्रथम भाग उसी दिन 14.00 बजे के बाद खोला जाएगा। निविदा का विस्तत जानकारी एवं निविदा में यदि कोई संशोधन अथवा निविदा खुलने की तिथि विस्तार होता है तो इसकी सुचना ई—टेण्डर वेबसाइट www.pvvnl.orgतथ निगम की वेबसाइट www.etender.up.nic.in पर उपलब्ध करायी जाएगी राष्ट्रहित में बिजली बचाएं, अधीक्षण अभियंता, विद्युत वितरण वितरण मण्डल—द्वितीय सहारनपुर पत्रांकः 1815/21.08.2023

ऋण वसूली अधिकरण—1, दिल्ली चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली—110001 रचडीएफसी बैंक लि

राहुल नारंग सेवा में, 1. राहुल नारंग डी /डब्ल्यू /एस /ओ राजिन्दर नारंग एस 438 भूतल ग्रेटर केलाश−II नई दिल्ली दक्षिण दिल्ली−110048, **इसके साथः** ए−37, लिंक रोड लाजपत नगर−II नई दिल्ली−110024 **इसके साथः** ओलमिया दिल्ली−110048. **2 ओलमिया फिटनेस प्रा**ित फिटनेस प्रा. लि. दूसरा तल एस-669 ग्रेटर कैलाश-II नई दिल्ली-110048, **2. ओलांग फिटनेस प्रा**. लि. एस-669, दूसरा तल ग्रेटर कैलाश-2 नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली-110048, **3. शैफाली नारंग** एस-438 भूतल ग्रेटर कैलाश-2 नई दिल्ली दक्षिण दिल्ली-110048, **इसके साथ** ओलम्पिया फिटनैस प्रा. लि. दूसरा तल एस-569 ग्रेट कैलाश-2 नई दिल्ली-110048, ए-37, लिंक रोड लाजपत नगर-2 नई दिल्ली मध्य दिल्ली-110024 jकि उपरोक्त नामित आवेदक ने **रु. 59,45,029.59/— (उनसठ लाख पैतालीस हजार उनतीस रुपए एवं उनस**ठ भूक उपरावत गामत आवदक न **र. कामका,प्रक्रकार — (उत्तरात लाव पतालात रूपार उत्तरात रुपर एवं उत्तर** पैसे) की वसूली के लिए आपके विरुद्ध एक मुकदमा दाखिल किया है और अधिकरण के संज्ञान में आया है कि सामान्य तरीके से आपको जानकारी देना संभव नहीं है इसलिए इस विज्ञापन के माध्यम से सूचना देते हुए आपको **11.12.2023 को प्रातः 10.30 बजे** एलडी. रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। (विस्तृत विवर के लिए कृपया ढीआरटी वेबसाइट www.etribunal.gov.in देखें या फोन नं. 011–23748473 पर सम्पर्क करें) यह त्यान रखें कि निर्धारित तिथि को अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर इस मामले पर आपकी अनुपस्थिति में सुनवाई कर निर्णय लिया जाएगा। <mark>वर्तमान महामारी की स्थिति को देखते हुए सभी मामलों को वीडियो कॉन्क्रीसेंग</mark> के **माध्यम से लिया जा रहा है और इस प्रयोजन के लिए** (i) सभी अधिववता /लिटिगेंट्स को सिस्को वेवेक्स एप्लीकेशन/सॉपटवेयर डाउनलोड करना होगा। (ii) रजिस्ट्रार/वसूली अधिकारी-I एवं वसूली अधिकारी-II द्वार की जाने वाली सुनवाई की अगली तिथि के लिए मीटिंग आईडी एवं पासवर्ड डीआरटी आधिकारिक पोर्टल drt.gov.ii ार सार्वजनिक सूचना हैड के अंतर्गत सुनवाई की तिथि से एक दिन पूर्व उपलब्ध होगी। (iii) किसी भी आपातकालीन रिथति के लिए अधिवक्ता / लिटिगेंट्स फोन नं. 011—23748478 पर संबंधित अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं। आ 28 जुलाई, 2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं अधिकरण की मोहर के साथ जारी किया गया।

आम सूचना

फॉर्म संख्या आईएनसी-19

(कंपनी निगम और अनुषंगी नियम 2014 के नियम 22 के अनुसरण में) एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 की उपधारा (5) के अंतर्ग गावेदक क्लाइमेट पॉलिसी फाउंडेशन (सीनः U93000DL2017NPL325479) द्वारा लाइसेंस व समर्पण हेतु तथा अपने नाम के साथ लिमिटेड अथवा प्राइवेट लिमिटेड जैसा भी मामला हो लगाने की अनुमति के लिए आवेदन दिया गया है।

कंपनी के मख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं। ऊर्जा और भूमि उपयोग नीतियों में सुधार की दृष्टि से विभिन्न कार्यक्रम और अध्ययन करन नवीकरणीय ऊर्जा वित्त के क्षेत्रों में विश्लेषण करना और सरकारी और संस्थागत निकायों क सलाह देना जिसमें उपलब्धता के साथ-साथ पूंजी की लागत देशभर में तुलनात्मव विश्लेषण तथा नवीकरणीय सब्सिडी वन क्षेत्र बढ़ोतरी जैसे मुद्दे संबंधित है,

नीति निर्माताओं, निजी क्षेत्र ऊर्जा और जलवायु नीति विशेषज्ञों के साथ कार्यक्रम आयोजि करना ताकि प्रमुख मुद्दों पर चर्चा और जलवायुँ परिवर्तन के कारण और प्रभाव को संबोधित करने के लिए नीतिगत समाधान तलाशना और ऊर्जा एवं अन्य आर्थिक क्षेत्र का जलवा परिवर्तन में योगदान और इस संबंध में अनुसंधान प्रायोजन, प्रकाशन, सेमिनार, व्याख्यान पैनल आयोजित कर ऊर्जा और अन्य आर्थिक क्षेत्र का जलवायु परिवर्तन पर कारण और प्रभाव के बारे में जनता को शिक्षित करना है।

कंपनी का मसौदा ज्ञापन और अनुच्छेदों की एक प्रति आवेदक के पंजीकृत कार्यालय भाग 254- 255 प्रथम तल डीएलएफ साउथ कोर्ट साकेत नई दिल्ली 110017 पर देखी जा सकती है।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि इस आवेदन पर आपत्ति करने वाला कोई व्यक्ति, फर्म कंपनी निगम अथवा कारपोरेट निकाय इस आवेदन प्रकाश की तिथि से 30 दिनों के भीतर क्षेत्रीर निर्देशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, बी 2— विंग, पंडित दीनदयाल भंत्योदय भवन, सीजीओ कंपलेक्स, नई दिल्ली— 110003, पते पर पंजीयक को संबोधित पर द्वारा आपत्ति सूचित किया जा सकता है जिसकी एक प्रति आवेदक के पंजीकृत कार्यालय प अग्रेषित की जाएगी। क्लाइमेट पॉलिसी फाउंडेशन

तारीखः 22.08.2023

विवेक सेन

अधिकरण के आदेषाानुसार, सहायक रजिस्ट्रा

(निदेशक) डीन: 0963662 पंजीकृत कार्यालय भाग 254–255, प्रथम तल, डीएलएफ साउथ कोर्ट, साकेत नई दिल्ली 11001

In The Court of In The Court of Ms. Niharika Kumar Sharma, Administrative Civil Judge-Cum-Civil Commercial Civil Judge-Cum-Addl. Cum-Addl. Controller, (North District) Room No. 215, Rohini Courts, Delhi. Courts, Delhi. SCC No.50/2023

Ramesh Kumar Gulati

V/sState & Anr. Mr. Ramesh Kumar Gulati S/o Ushnak Rai, R/o 252-A Sarai Pipal Thalla, Punjabi

Gali, Adarsh Nagar, Delhi Versus

110033.

State. For Succession Certificate Jnder Succession Act-1925 All concerned

Whereas in the above noted petition the applicant petitioner has applied for Succession Certificate from he Hon'ble Court under Section 372 of the Indian Succession Act-1925 in respect of the amount & assets which is lying in the name of Late Ms. Gulshan Gulati D/o Usha Nayak R/o 252A, Sarai Pipal Thalla, Punjabi Gali, Adarsh Nagar Delhi-110033.

Regarding amount lying ir Saving A/c No. 10659700599 with SBI Bank Whereas 11/09/2023 at 10

o'clock in the forenoon has been fixed for hearing.

The application notice is hereby given under my hand and seal of the court this on Sd/

Admn. Civil Judge-Cum-CCJ-Cum-ARC North) Rohni Courts Delhi. Ms. Niharika Kumar Sharma, Administrative Judge-Cum-Commercial Civil Judge-Rent Controller, (North District) Room No. 215, Rohini SCC No. 47/2023

Simmi Khanna V/s

State & Anr. Smt. Simmi Khanna S/c Late Sh. Rajesh Khana, R/o A-21/23, Swarn Singh Road, Adarsh Nagar, Delhi-110033.

> Versus State.

For Succession Certificate Under Succession Act-1925 All concerned

Whereas in the above noted petition the applicant/ petitioner has applied for Succession Certificate from the Hon'ble Court under Section 372 of the Indian Succession Act-1925 in respect of the amount & assets which is lying in the name of Late Sh. Rajesh Khanna S/o Late Sh. Surinder Kumar Khanna R/o A-21/23, Swarn Singh Road, Adarsh Nagar, Delhi-110033.

Regarding amount of LIC Policy No. 74965255. Whereas 11/09/2023 at 10 o'clock in the forenoon has been fixed for hearing.

The application notice is hereby given under my hand and seal of the court this on Sd/-Seal Admn. Civil Judge-

(North) Rohni Courts Delhi

Cum-CCJ-Cum-ARC

Seal Sd/ **Additional District** Judge-04, (North) Rohini Court, Delhi.

शारदा मोटर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (CIN: L74899DL1986PLC023202) पंजीकृत कार्यांतयः डी–188, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–1, नई दिल्ली–110020 फोन नं. +91 11 4733 4100, फैक्स नं. +91 11 2681 1676, torrelations@shardamotor.com, Website: www.shard

सार्वजनिक सूचना–38वीं वार्षिक आम बैठक जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों तथा उसके अधी बनाए गए नियमों के साथ पठित परिपन्न सं. 10 / 2020 दिनांक 28 दिसम्बर, 2020, परिपन्न सं 14 / 2020 दिनांक ८ अप्रैल. 2020. परिपत्र सं. 17 / 2020 दिनांक 13 अप्रैल. 2020. परिपत्र सं 0/2020 दिनांक 5 मई, 2020 और परिपत्र सं. 02/2022 दिनांक 5 मई, 2022 (संयुक्त रूप 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) और सेबी परिपत्र सं सेबी/एचओ/सीएफडी, ोओडी—2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 दिनांक 5 जनवरी 2023 और सेबी / एचओ / सीएफर्ड सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांक 13 मई, 2022 ('सेबी परिपत्र') (एमसीए परिपत्र वं सेबी परिपत्र यहां के बाद संयुक्त रूप से ''परिपत्र'' के रूप में संदर्भित) के साथ अन्य लाग गरिपत्रों के अनुपालन में 38वीं एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए शारदा मोटर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ('कम्पनी') के सदस्यों की 38वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम' / 'बैठक') मंगलवार, 26 सितम्बर, 2023 को दोप. 12.00 बजे (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (''वीसी'), अन्य ऑडियो वीडियो माध्यमों (''ओएवीएम'') के द्वारा आयोजित की जाएगी। ज्थित परिपत्रों के अनुसरण में, 38वीं एजीएम की सूचना के साथ वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां निर्धारित समय-सीमा के भीतर उन सदस्यों को भेजी जाएर्ग जिनके ई–मेल पते कम्पनी / रजिस्टार एवं टांसफर एजेंट (''रजिस्टार / आरटीए'') / डिपॉजिटरी प्रतिभागी (''डीपी'') के पास पंजीकृत हैं। कथित एजीएम सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.shardamotor.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यथा बीएसई लिमिटेड एव नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड क्रमशः www.bseindia.com ए ww.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगी। कथित दस्तावेज सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लेमिटेड की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध होंगे।

. नदस्यगण केवल वीसी/ओएवीएम स्विधा के माध्यम से ही भाग ले सकते हैं जिसका विवरण पनी द्वारा एजीएम की सूचना में दिया जाएगा। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों की गणना कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम के निर्धारण हेत की जाएगी।

्र म्पनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट रिमोत ई—वोटिंग सुविधा (''रिमोट ई—वोटिंग'') के माँध्यम से देने की सुविधा उपलब्ध करा रही है। कम्पर्न . जीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम ("ई-वोटिंग") के माध्यम से वोट देने की भी सविधा उपलब्ध ज्य रही है। रिमोट ई—वोटिंग/ई—वोटिंग और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएँम में शामिल होने की विस्तृत प्रक्रिया सदस्यों को शीघ्र ही भेजी जाएगी। सदस्यगण जो ई-मेल प्राप्त नहीं करते हैं या जिनके ई-मेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास पंजीकृत नहीं हैं, वे एजीएम की सूचना में दिये गये नोट्स में दिये गये निर्देशों का पालन करके लॉगइन क्रेडेंशियल्स जेनरेट oर संकते हैं। यही लॉगइन क्रेडेंशियल्स वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने हे लिए भी प्रयोग किये जा सकते हैं।

ई—मेल पता पंजीकरण/अपडेट करने की प्रक्रियाः क) भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिन्होंने अपना ई–मेल पता कम्पनी गस पंजीकृत नहीं कराया है, उनके अनुरोध है कि वे निम्नलिखित दस्तावेजों की स्कैन की गः प्रति कम्पनी को ई-मेल investorrelations@shardamotor.com/rta@alankit.com य alitap@alankit.com पर भेंजें:

अपना नाम, फोलियो नं. एवं पता वर्णित करते हुए हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र . पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति और

i. पते का प्रमाण (अर्थात् आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट) की ख) डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिन्होंने अपना ई–मेल पत . डेपॉजिटरी प्रतिभागियों के पास पंजीकृत नहीं कराया है, उनके अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी

ातिभागी के पास अपना ई—मेल पता पंजीकृत/अपडेट कराएं। ादस्यों से अनुरोध है कि वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के निर्देश सहित जीएम की संचना में दिये गये नोटस और रिमोट ई—वोटिंग / एजीएम के दौरान ई—वोटिंग की मक्रिया को भली–भांति पढ लें। इस संबंध में किसी भी प्रकार की सहायता के लिए कृपया कम्पर्न पास ई-मेल investorrelations@shardamotor.com पर सम्पर्क करें

कृते शारदा मोटर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड दिनांकः 21 अगस्त, 2023 स्थानः नई दिल्ली

नितिन विश्नोई कार्यपालक निदेशक एवं कम्पनी सचिव person i.e. myself. is Asha Devi. known as Pushpa Pal. C-30681 नाम परिवर्तन नाम से जाना जाए।

से जाना पहचाना जाए। C-32112

वैधानिक सूचनाः पाठकों को सलाह दी जाती है कि किसी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया से पहले विज्ञापन मे बारे में पूरी तरह उपयुक्त जांच-विवरण के बारे में विज्ञापनदाता द्वारा किए गए दावे या उल्लेख की पुष्टि या समर्थन नहीं करता। समाचार पः

Name of the Borrower(s) / Co-Borrower(s)			Date of Demand		
Mr. Kulwant Singh Mrs. Harbans Kaur Kulwant Garments Prospect No IL10357497	All that piece and parcel of : Property out Khewat no. 211, Khatoni no. 269, Land Area 1361 sq. ft., Carpet Area 755 sq. ft., Built-Up Area 944 sq. ft., comprised in Killa no. 23/1(5-4) situated in vill. Mehkam, Nearby Kg Shellers, Teh Jalalabad, Dist. Falzilka, Punjab, 152001	Seven Lakh Ninety One Thousand Five Hundred	12-June-	Possession 18-Aug- 2023	
Mr. Jaswinder Singh Mrs. Sukhwinder Kaur Chindu Karyana Store Prospect No IL10327505	All that piece and parcel of : Property out of khewat no. 233, khatoni no. 312 comprised under killa no. 17/2/1(5-6), Land Area 1361 sq. ft., Carpet Area 1058 sq. ft., Built-Up Area 1322 sq. ft., situated in vill. Chak Kathgarh, Teh. Jalalbad Distt. Fazilka, Punjab, 152001	Seven Lakh Forty Two Thousand Two Hundred	12-June- 2023	18-Aug- 2023	

Ludhiana, Punjab - 141001 or Corporate Office : IIFL Tower, Plot No. 98, Udyog Vihar, Ph-IV Gurgaon, Haryana. Place: Falzilka: Date: 22-08-2023 Sd/-, Authorised Officer, For IIFL Home Finance Ltd.

Syndicate

IMMOVABLE PROPERTIES published o 27.07.2023 in English Newspaper- "FINANCIAL EXPRESS" (Page No.37) & in Hindi Newspaper "JANSATTA" (Page No.19) at Sr. No.33 (in Loar A/C KAPOOR BROTHERS) are not available fo sale now. This property has been withdrawn by the bank from E-auction process to be held or Rest of e-auction notice remains same

Circle SASTRA Centre. East Delhi, Mayur Viha

Phase-II. Pocket-E. Delhi-110091

CORRIGENDUM

e-auction Notice i.e. SALE NOTICE FOR SALE OF

Punjab National Bank Date: 21.08.2023



केनरा बैंक Canara Bank





RECOVERY & LEGAL SECTION CIRCLE OFFICE, BAYSITE 17-18, SECTOR 12, KARNAL-132001 HARYANA PHONE NO. 0184-4063589, 4063587, Email: rlcokar@canarabank.com

E-AUCTION SALE NOTICE

SALE NOTICE OF IMMOVABLE ASSETS UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT. 2002 UNDER RULES 8(6) & 9 OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable properties mortgaged/charged to the Secured Creditor, the possession of which has been taken by the Authorised Officer of Canara Bank will be sold on "As is where is","As is what is", and "Whatever there is" in E auction arranged by the service provider M/s CANBANK COMPUTER SERVICES LIMITED Contact: Mr. Pakhare DD (9480691777/8553643144). Email id: eauction@ccsl.co.in through the website www.indianbankseauction.com, www.canarabank.com, www.ibapi.in

Sr. No. 1 & 2 LAST DATE OF RECEIPT OF EMD IS 21.09.2023 (UPTO 5:00 P.M.) Sr. No. 3 to 6 LAST DATE OF RECEIPT OF EMD IS 07.09.2023 (UPTO 5:00 P.M.)

Sr. No. 1 & 2 DATE OF E-AUCTION IS 25.09.2023 (12:30 PM TO 1:30 P.M.) Sr. No. 3 to 6 DATE OF E-AUCTION IS 11.09.2023 (12:30 PM TO 1:30 P.M.)

(with unlimited extension of 5 minutes duration each till the conclusion of the sale)

SL No.	Branch Name/ Name & Address of the Borrower(s) / Guarantor(s)	Brief Description of Property/ies	Total Liabilities as on specified Date	Reserve Price (in Rs.)	Earnest Money Deposit (EMD) (in Rs.)	
	the Borrower(s) / Guarantor(s)	riopanymos	on specified bate	fur ready		Possession Type
1.					20	209272434
	Authorised officer- Sanjay Satija,	 224 A on first floor of plot No. – 224, Simran City, 	02.04.2021 Pa 22.03.734.15/	Rs.	Rs. 1.79 Lakh	CNRB0006290
	(M) 85728-16290, Mail ID: cb6290@canarabank.com	Village – Madhopur, Dera	plus further interest &	17.00 Lakii	1.75 Lakii	Physical possession
		other charges (minus r	ecovery ,if any)		

Rajinder Singh (Borrower) Mohali – Punjab – 140507

Address 1: Flat No - 224, First Floor, Simran City, Village - Madhopur, Dera Bassi, District SAS Nagar, Mohali - Punjab - 140507Address 2: H No. 54, Harmilap Nagar, Phase – 2, Baltana Mohali SAS Nagar – 140604. 2. Sh. Shubham Dhiman s/o Sh. Rajinder Singh (Co-borrower) Address 1 Flat No - 224, First Floor, Simran City, Village - Madhopur, Dera Bassi, District SAS Nagar, Mohali - Punjab - 140507. Address 2: H No. - 54, Harmilan Nagar, Phase - 2. Baltana Mohali SAS Nagar - 140604, 3. Sh. Rakesh Kumar s/o Darshan Lal (Guarantor) SCF - 54, Preet Colony, Lohgarh, Mohali SAS Nagar – 140603. ARMB, Novelty Road, Karnal branch, All the piece and parcel of Total liabilities as on

Authorised officer- Sanjay Satija, (M) 85728-16290, Mail ID: cb6290@canarabank.com

Residential H No - 958-P. 31.03.2021 CNRB0006290 measuring area 510.69 sq. Rs.11,94,81,535.46 /- 239.00 Lakh 23.90 Lakh Symbolic possession yards in the name of Sh. Kapur plus further interest & 1. M/s Guru Nanak Agro Singh situated at sector - 19, other charges (minus recovery if any) Industries (Borrower) Through Part - II, Urban Estate, Tehsil & District Kaithal Haryana.

its Proprietor Sh. Kapur Singh Address:- Village Rasoolpur, P.O. - Mandi, Tehsil - Guhla, District - Kaithal, Haryana. 2. Sh. Kapur Singh s/o Sh. Gurnam Singh (Proprietor & Mortgagor) Address 1: House No. - 958-P, Sector - 19, Part - II, Urban Estate, Tehsil & District - Kaithal, Haryana. 3. Sh. Lakhvinder Singh s/o Sh. Kapoor Singh (Guarantor) Address 1: House No. - 958-P, Sector - 19.

Jain Mandir, Boy school wali Rs.61,36,674/- plus 29.79 Lakh

gali, Gannaur, Sonipat in the further interest &

382,1st Floor having covered 01.09.2016

Part - II, Urban Estate, Tehsil & District - Kaithal, Haryana ARMB, Novelty Road, Karnal branch, Residential House measuring Total liabilities as on Authorised officer- Sanjay Satija, 352 Sq Yards situated at Near 07.08.2019 Rs.

1. M/s B.K. Industries (Borrower) name of Pardeep Kumar S/o other charges (minus recovery if any) Address Plot NO-1575, Ground Sh. Bal Kishan. The property is bounded as under: North: Gali, South: House of other, East: House of others Floor, HSIIDC, Rai, Sonipat-West:House of others

131029, Haryana 2. Sh. Pradeep Kumar (Proprietor and Mortgagor) Address No:-331, Village Sandal Kalan (Niwada), Sonipat-131001, Haryana 3. Sh. Ashish Tyagi S/o Shiv Dutt (Guarantor) Address:-Village-Teha, Tehsil – Ganaur, District – Sonipat. 209272434

ARMB, Novelty Road, Karnal branch, Property 1) All the piece and Total liabilities as on parcel of Factory Land and 18.12.2018 Authorised officer- Sanjay Satija, building measuring 26K - Rs.7,02,01,434.35 /- 752.68 Lakhs (M) 85728-16290, 09M, Land measuring 05K- plus further interest & Mail ID: cb6290@canarabank.com 1. M/s Shiva Agro Industries 00M Comprising In khewat no. other charges (minus recovery ,if any)

(M) 85728-16290,

Mail ID: cb6290@canarabank.com

Address: - Firojpur Road, Village, 38, khatoni no. 41, Khasra No. 307//7/2 (1-0), 8/1 (4-0) And Land measuring 21K-09M Comprised in Khewat Kaithal, Haryana

Tehsil Siwan, Kaithal, Haryana 2. No. 2041, Khatoni No. 2610, Khasra No. 307//4, (7-11), 6/2 (6-18), 7/1(7-0), situated at village Siwan, Tehsil & Sh. Naresh Kumar S/o Sh. Distt. Kaithal in the name of M/s Shiva Agro Industries Through its partner Smt. Renu Rani & Sh. Naresh Kumar. R a m e s h w a r D a s s Property 2) All the piece and parcel of Land adjoining Factory Land measuring 22K - 16M, Land measuring (Partner/Guarantor) Address: - 18K-07M Comprising in Khewat No. 1286, Khasra No. 296//25,297//20/2, 307//5 and Land measuring 04K-House No. 159, Sector 19, Part-1, 09M Comprised in Khewat No. 1814, Khasra No. 296//26/2, 307//6/1 situated at village Siwan, Tehsil & Distt. Kaithal, Haryana 3. Smt. Renu Kaithal in the name of Smt. Renu Rani & Sh. Naresh Kumar (Partners of the Firm) Garg W/o Sh. Naresh Kumar Property 3) All the piece and parcel of Plot measuring 04K-04M Comprising in Khewat/Khatoni No. 93/173

(Partner/Guarantor) Address: - Rect. No. 68, Killa No. 16, 17/1, 17/3, 18, 19, 22, 23/2, 24/1, 24/3, 25, Rect. No. 69, Killa No. 18, 19, 20, 21, 22, House No. 159, Sector 19, Part-1, RecT. No. 81, Killa No. 1,2,3/2,4/2, Kitte - 20, Situated at Village patti Gadar, tehsil & Distt. Kaithal in the Name of Smt. Renu Rani w/o Sh. Naresh Kumar (In the name of One of the Partners) ARMB, Novelty Road, Karnal branch, EMT of Residential Flat No- Total liabilities as on 209272434

Authorised officer- Sanjay Satija, (M) 85728-16290, Mail ID: cb6290@canarabank.com

area 133.49 Sq mtrs Rs. 94.07.093.01/- 102.00 Lakh 10.20 Lakh Symbolic possession constructed on total area plus further interest & 1. Mr. Vinod Kumar S/o measuring 358.80 Sq Yards other charges (minus recovery if any) Abdesh Rai alias Mr. Avdhesh without Roof Rights in the name of Mr Vinod Kumar situated at Faridabad Sector-46, Faridabad

Rai (Borrower & Mortgagor) Address (i):- H.No-C-1596, Block-C, Gali No-8, 22 Feet Road SGM Nagar, Faridabad-121001, Haryana Address (ii):- H.No-C-540, Block-C, Gali No-8, 22 Feet Road SGM Nagar, Faridabad-121001, Haryana Address (iii):- H.No- 382, 1st Floor, Sector-46, Faridabad-121003, Haryana 2, Mr. Abdesh Rai alias Mr Avdhesh Rai S/o Jamuna Rai (Guarantor) Address (i): H.No-C-1540, Block-C, Gali No-8, 22 Feet Road SGM Nagar, Faridabad-121001, Harvana Address (ii): - H.No-C-540, Block-C, Gali No-8,22 Feet Road SGM Nagar, Faridabad-121001, Haryana

Authorised officer- Sanjay Satija, (M) 85728-16290.

ARMB, Novelty Road, Karnal branch, Residential Vacant Plot No. Total liabilities as on 209272434 297, measuring 500 Sq. Mtrs. 31.05.2022 Rs. CNRB0006290 Situated at Rohini Nagar, Rs.4,86,85,508.29 /- 24.75 Lakhs 2.48 Lakhs Mail ID: cb6290@canarabank.com Phase-1, Tehsil Phagi, Jaipur, plus further interest & Physical possession

M/s Aavran Packaging Rajasthan in the name of Sh. other charges (minus recovery ,if any)

(Represented through its Hukam Singh Chauhan Proprietor Sh. Hukam Singh Chauhan) 2. Sh. Hukam Singh Chauhan (Proprietor) Address-1: 257, Second Floor, N Block, Mayfield Gardens,

Sector-51, Gurugram-122003 Address-2: Villa N-4, Konark OISIS, Alwar Bye Pass Road, Bhiwadi 301019 Address-3: Plot No-6132/7, 3rd Floor, Sector-D, Pocket 6, Vasant Kuni, New Delhi -110070

Other terms and conditions:

(a) The property is being sold with all existing and future encumbrances, whether known or unknown to the bank. The authorized officer/secured creditor will not be responsible for any third-party claims, rights, or dues. The purchaser should conduct due diligence on all aspects related to the property to their satisfaction. Bidders are advised to satisfy themselves with the title and correctness of other details pertaining to the secured assets, including the size/area of the immovable secured asset in question and ascertain any other dues, liabilities, or encumbrances from the concerned authorities to their satisfaction before submitting the bid. The purchaser shall not be entitled to make any claim against the authorized officer/secured creditors in this regard at a later date.

(b) In the event of any default in payment of any of the amounts, or if the sale is not completed due to default on the part of the purchaser/bidder within the aforementioned time limit, the bank shall be entitled to forfeit all monies paid by the purchaser/bidder till then and put up the secured asset(s) for sale again, in its absolute discretion. Further, all costs and expenses incurred by the bank on account of such resale shall be borne and paid by the defaulting purchaser.

 Auction/bidding shall be only through Online Electronic Bidding through the website www.indianbankseauction.com. Bidders are advised to go through the website for detailed terms before taking part in the e-auction sale proceedings. (d) The property can be inspected with prior appointment with the authorized officer on or before the date of submission of EMD, i.e., Sr.no.1&2

(15.09.2023), Sr.no.3 to 6 (02.09.2023). (e) The property will be sold for the price which is more than the Reserve Price, and the participating bidders may improve their offer further during the

auction process. (f) EMD amount of 10% of the Reserve Price is to be deposited by way of Demand draft in favour of Authorized Officer of respective Canara Bank

Branches, OR shall be deposited through RTGS/NEFT/Fund Transfer to credit of account of respective Canara Bank Branches, on or before Sr.no.1 & 2 (21.09.2023), Sr.no.3 to 6 (07.09.2023) by 05.00 pm.

(I) After payment of the EMD amount, the intending bidders should submit a copy of the following documents/details on or before Sr.no.1 & 2 (21.09.2023), Sr.no.3 to 6 (07.09.2023), 05.00 PM, to Canara Bank respictive Branches/regional office panipat by hand or by email.

(ii) Demand Draft/Pay order towards EMD amount. If paid through RTGS/NEFT, acknowledgement receipt thereof with UTR No.

(iii) Photocopies of PAN Card, ID Proof and Address proof. However, successful bidder would have to produce these documents in original to the Bank at the time of making payment of balance amount of 25% of bid amount.

(iv) Bidders Name. Contact No. Address, E Mail Id.

(v) Bidders A/c details for online refund of EMD.

Date: 21.08.2023

financial exp.epmr.in

(g) EMD deposited by the unsuccessful bidder shall be refunded to them. The EMD shall not carry any interest.

(h) Auction would commence at Reserve Price, as mentioned above. Bidders shall improve their offers in multiples of Rs. 50,000/- for (property no. 1 to 5) & Rs. 10,000/- for (property no. 6). The bidder who submits the highest bid (above the Reserve price) on closure of Online auction shall be declared as successful bidder. Sale shall be confirmed in favour of the successful bidder, subject to confirmation of the same by the secured creditor.

 The successful bidder shall deposit 25% of the sale price (inclusive of EMD already paid), immediately on declaring him/her as the successful bidder, and the balance within 15 days from the date of confirmation of sale by the secured creditor. If the successful bidder fails to pay the sale price,

the deposit made by him shall be forfeited by the Authorized Officer without any notice, and the property shall forthwith be put up for sale again. (j) For sale proceeds of Rs. 50 (Rupees Fifty) lacs and above, the successful bidder will have to deduct TDS at the rate 1% on the Sale proceeds and

submit the original receipt of TDS certificate to the Bank. (k) All charges for conveyance, stamp duty/GST registration charges, etc., as applicable, shall be borne by the successful bidder only.

(I) Authorized Officer reserves the right to postpone/cancel or vary the terms and conditions of the e-auction without assigning any reason thereof. (m) In case there are bidders who do not have access to the internet but are interested in participating in the e-auction, they can approach the concerned Regional Office as a facilitating centre. For further details, contact No. 0184-2257855 E-mail id: recrokar@canarabank.com.

SPECIAL INTRUCTION/CAUTION

Bidding in the last minutes/seconds should be avoided by the bidders in their own interest. Neither Canara Bank nor the Service Provider will be responsible for any lapses/failure (internet failure, Power failure, etc.) on the part of the bidder or vendor in such cases. In order to ward off such contingent situation, bidders are requested to make all the necessary arrangements/alternatives such as back-up, power supply and whatever else required so that they are able to circumvent such situation and are able to participate in the auction successfully.

STATUTORY 30/15 DAYS SALE NOTICE UNDER THE SARFAESI ACT, 2002

Place: karnal

Public Notice for loss of Share Certificates been reported lost/misplaced and has applied to the company for the issue of duplicate

S.N.	Folio No.	Name of the holder	Certificate No(s).	Distinctive Nos.	No. of shares
1			1	0-10	10
2			3	21-30	10
3			5	41-50	10
4	17	Longwell Investment	6	51-60	10
5			7	61-70	10
6			8	71-34070	34000
7		Private Limited	10	44171-45000	830
8			24	200001-950000	750000
9			25	950001-1750000	800000
10			27	2150001-3450000	1300000

Any person (s) who has / have any claim in respect of the said certificate (s) should lodge such claim (s) with the share department of the Company at its Regd. Office 1400, Mod Tower, 98 Nehru Place, New Delhi - 110019, within 15 days of the publication of this NO-TICE. After which no claim will be entertained, and the company will proceed to issue the duplicate share certificates.

Place: New Delhi Date: 21.08.2023

share Certificate.

Umesh Kumar Modi Chairman & Director

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

BRANCH OFFICE: WRIGHT GANJ, GHAZIABAD, U.P. POSSESSION NOTICE (For Immovable Property) Appendix-IV [See Rule - 8(1)]

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of the

Central Bank of India, Ghaziabad Branch, under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. issued a Demand Notice dated 30/01/2023, calling upon the

Borrowers: MR. MANISH PANDEY S/O MR. RAJENDRA PANDEY AND MRS. NIHARIKA PANDEY W/O MR. MANISH PANDEY, to repay the amount as mentioned in the notice being Rs.7,90,850/- (Rupees Seven Lakh Ninety Thousand Eight Hundred and Fifty Only) within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) rules, 2002 on this day 19" Day of August 2023. The borrowers in particular and the public in general is hereby

cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of Central Bank of India, Ghaziabad Branch for an amount of Rs.7,90,850/- (Rupees Seven Lakh Ninety Thousand Eight Hundred and Fifty Only) as on dated 30.01.2023 and applicable interest / charges thereon. The Borrower's attention is invited to provisions of sub-Section (8) of Section (13) of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets. DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

All that part and parcel of the property consisting of the

Residential MIG Flat No.GF-3, Backside Ground Floor situated at Plot No.D-9/12, Road No.D-9, DLF Ankur Vihar, Village Loni, Ghaziabad, U.P. admeasuring 630 Sq.Feet. Owners Mr. Manish Pandey S/o Rajendra Pandey, Bounded By: East: Plot No. D-9/13 West: Plot No.D-9/11

North: EWS Flat

209272434

209272434

CNRB0006290

Physical possession

CNRB0006290

Symbolic possession

CNRB0006290

Authorized officer, Canara Bank

Rs.

2.98 Lakh

Rs.

75.27 Lakhs

Rs.

South: Road D-9, 9,00 Mtr. wide

PLACE: GHAZIABAD, U.P. DATE: 19.08.2023

Authorised Officer Central Bank of India

FEDERAL BANK

YOUR PERFECT BANKING PARTNER

Federal Towers, 3rd Floor Zonal Office, 2/2 West Patel Nagar, New Delhi-110008 CIN: L65191KL1931PLC000368 Website: www.federalbank.co.in

PUBLIC NOTICE FOR RUPEEK GOLD AUCTION Notice is hereby given to the public in general and the account holders in particular

that e-auction of the pledged gold ornaments in the below mentioned account/s will be conducted by Federal Bank Ltd., on 15/09/2023 through online portal https://gold.samil.in. Interested buyers may log on to the auction portal or contact the Bank at following branches for further information. In case e -auction is not materialised for any reason on the date mentioned above, with respect any or all items of the pledged ornaments, Bank shall be conducting private Sale/E-

S.No.	Branch Name	Loan A/c, No.	S.No.	Branch Name	Loan A/c. No
1.	Dwarka	15456800007954	30.	Greater Kailash II	13606800007543
2.	Dwarka	15456800013457	31.	Greater Kailash II	13606800007717
3.	Dwarka	15456100047569	32.	Rohini	14746800007918
4.	Dwarka	15456100049110	33.	Rohini	14746800008023
5,	Dwarka	15456100049169	34.	Rohini	14746800008908
6.	Dwarka	15456100049342	35.	Rohini	14746100040460
7.	Dwarka	15456100049615	36.	Rohini	14746800007116
8.	Dwarka	15456800016724	37.	Rohini	14746800006290
9.	Dwarka	15456800014893	38.	Rajouri Garden	15806100019606
10.	Dwarka	15456800022607	39.	Rajouri Garden	15806100019895
11.	Karol Bagh	13826800006051	40.	Hauz Khas	19806100020105
12.	Karol Bagh	13826800007208	41.	Hauz Khas	19806100020477
13.	Karol Bagh	13826800007653	42.	ShafipurRanhola	2183610002973
14.	Karol Bagh	13826800008032	43.	Paschim Vihar	15966800006913
15.	Karol Bagh	13826100028904	44.	Paschim Vihar	159668000007366
16.	Nehru Place	13026800005662	-		
17.	Kirti Nagar	18206100014896	-	Paschim Vihar	15966800007416
18.	Kirti Nagar	18206800004965	46.	Paschim Vihar	15966800008430
19.	Kirti Nagar	18206800003561		Paschim Vihar	15966800008752
20.	Kirti Nagar	18206800005541	48.	Paschim Vihar	15966800011343
21.	Kirti Nagar	18206800005970	_	Janakpuri	23066100000771
22.	Kirti Nagar	18206100015216	50.	Shalimar Bagh	16806100016411
23.	Kirti Nagar	18206100015315	51.	Shalimar Bagh	16806100017062
24.	Greater Kailash II	13606800008046	52.	Shalimar Bagh	16806800008510
25.	Greater Kailash II	13606800008236	53.	Shalimar Bagh	16806800008585
26.	Greater Kailash II	13606100066256	54.	Shalimar Bagh	16806100016726
27.	Greater Kailash II	13606800010554	55.	Shalimar Bagh	16806100017187
28.	Greater Kailash II	13606800010778	56.	Shalimar Bagh	16806800011340
29.	Greater Kailash II	13606800010935	57.	Shalimar Bagh	16806800013148

Place: DELHI Date: 22/08/2023

🛕 इसाहाबाद

ZONAL OFFICE GURGAON

Place: DELHI

52 Punjabi Bagh

53 Punjabi Bagh

54 Punjabi Bagh

Possession Notice (For Immovable Property) [Under Rule-8(1) of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002]

Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of the INDIAN BANK, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13 (12) read with rule 8 & 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notices on the date mentioned against account and amount stated hereinafter calling upon them to repay the amount within sixty days from the date of receipt of said notices. The Borrower/Guarantor/Mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/Guarantor/Mortgagor and the public in general that the

Branch Head.

(The Federal Bank Ltd.)

The Borrower/Guarantor/Mortgagor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Indian Bank for the amount along with future interest, cost, expenses and charges.

Interest Act, 2002, in respect of the time available, to redeem the secured assets.

Sr. No.	Name of the Account/ Borrower & address	Description of the Immovable property	Date of Demand Notice Date of Possession	Amt o/s (as mentioned in the Notice u/s 13(2)	
	BRANCH:- ROHTAK, Haryana 1.Mr Narender S/o Kaptan Singh, 2.Parmila W/o Sh. Narender Kumar 3. Mukesh Kumar S/o Sh. Puran Singh	All that part and parcel of Residential House situated on Plot No. 28, Min North forming part on Khewat No.202 Min Khata No. 272 Min Rect & Killa No. 26/10 Min mouja Kanheli, Ekta Colony, Rohtak having total area of 113.88 Sq. Yards in the name of Smt promila W/o Sh. Narender and bounded as under :-North - 25'0" Gali 20"Wide, South: 25'0" Plot No. 28, East: 41'0" Gali 20' wide, West: 41'0" Plot No. 29	21-08-2023	Rs. 7,27,689/- due and outstanding as on 11/11/2022 along with future interest, cost, expenses and charges	
	BRANCH:- ROHTAK, Haryana 1.Mr. Naresh Kumar S/o Sh. Suraj Bhan, 2.Mrs Sudesh Kumari W/o Naresh Kumar, 3.Mr. Madan Gopal S/o Bharat Singh	All that part and parcel of the Residential house Situated at Plot No.897, Sector 2(Part), Huda, Rohtak-124001 having total area of Area 216.30 Sq Yard in the name of Smt. Sudesh Kumari W/o Sh. Naresh Kumar & Sh. Naresh Kumar S/o Sh. Suraj Bhan, Bounded as: North - Plot No. 898, South: Plot No. 896, East - Plot No. 910, West - 10.30 meter wide	21-08-2023	Rs. 38,37,258/- due and outstanding as on 02/05/2023 along with future interest, cost, expenses and charges.	

East: Constd. Booth No.02, 37'6" (Length), West: Cement Stockist Booth

FINANCIAL EXPRESS

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

SHARDA MOTOR INDUSTRIES LIMITED
(CIN: L74899DL1986PLC023202)
Registered Office: D-188, Okhla Industrial Area, Phase I, New Delhi-110020 Tel.: +91 11 4733 4100 Fax: +91 11 2681 1676, Email: investorrelations@shardamotor.com Website: www.shardamotor.com

PUBLIC NOTICE - 38th Annual General Meeting

TUESDAY, AUGUST 22, 2023

26

This is to inform that the 38"Annual General Meeting ('AGM')'Meeting') of the Members of Sharda Motor Industries Limited ('the Company') will be held on Tuesday, September 26, 2023 at 12:00 Noon (IST) through Video Conference (VC'), Other Audio-Visual Means ('OAVM'), in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules made there under read with Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022, Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 and Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 (collectively referred as 'MCA Circulars') and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated January 5. 2023 and SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 ('SEBI Circulars') (MCA Circulars and SEBI Circulars collectively hereinafter referred as the 'Circulars'), along with any other applicable circularsto transact the businesses as set out in the Notice convening

In compliance with the said Circulars, electronic copies of the Notice of the 38" AGM alongwith Annual Report for the financial Year 2022-23, will be sent within prescribed timelines, only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Registrars & Transfer Agent / Depository Participants ('DPs') The said AGM Notice and Annual Report shall also be available on the website of the Company at www.shardamotor.com and also on the websites of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com. respectively. The said document shall also be available on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.evotingindia.com. Members can participate and attend the AGM ONLY through VC/OVAM facility, the details of

which will be provided by the Company in the Notice of the AGM. Members attending the Meeting through VC/OVAM shall be counted for the purpose of reckoning the guorum under section 103 of the Companies Act, 2013. The Company is providing remote e-voting facility ('remote e-voting') to all its members to cast

their votes on all the resolutions set out in the Notice of the AGM, The Company is also providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). Detailed Procedure for remote e-voting/e-voting and participation in AGM through VC/OAVM has been provided in the Notice of AGM, which shall be sent to you shortly. Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the Company/Depository Participant(s) may generate login credentials by following instructions given in the Notes to Notice of the AGM. The same login credentials may also be used for attending the AGM

Manner of registering / updating email addresses: (a) Members holding shares in physical mode, who have not registered/updated their email

The Federal Bank Ltd.

self-attested copy of the PAN Card and

addresses with the Company, are requested to send the scanned copy of the following documents by email to the Company at investorrelations@shardamotor.com rta@alankit.com or lalitap@alankit.com a signed request letter mentioning their name, folio no. and address;

self-attested copy of Address proof (e.g. Aadhar Card, Driving License, Election Identity Card, Passport). (b) Members holding shares in dematerialized mode, who have not registered/updated their

email addresses with the Depository Participant(s), are requested to register/update their

email addresses with their Depository Participant(s). Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM. including instructions for attending the AGM through VC/OAVM and the manner of casting vote through remote e-voting /e-voting during the AGM. For any assistance in this regard, please contact Company at investorrelations@shardamotor.com.

For Sharda Motor Industries Limited Date: August 21, 2023 Place: New Delhi Nitin Vishnoi

Federal Towers, 3rd Floor Zonal Office, Your Perfect Banking Partner 2/2 West Patel Nagar, New Delhi-110008 Regd. Office. Alwaye, Kerala NOTICE FOR PRIVATE SALE OF GOLD

pledged in the following Gold loan accounts, with the under mentioned branches of the Bank, which are overdue for redemption and which have not been regularised so far in spite of repeated notices, will be put for sale in the branch on or after 10/09/2023 as shown below: S.No. Branch Name Loan A/c. No. S.No. Branch Name

	2	Dwarka	15456100049854	56	Punjabi Bagh	16786100006655
1	3	Dwarka	15456100049607	57	Punjabi Bagh	16786400004863
ď.	4	Karol Bagh	13826400003474	58	Punjabi Bagh	15966800011343
٦	5	Karol Bagh	13826400003607	59	Punjabi Bagh	16786100006739
ı	6	Karol Bagh	13826100028375	60	Punjabi Bagh	16786100006564
ı	7	Nehru Place	13026400009445	61	Punjabi Bagh	16786100006291
ı	8	Nehru Place	13026100165646	62	Punjabi Bagh	16786400004764
1	9	Nehru Place	13026100166016	63	Rajouri Garden	15806400007244
1	10	Nehru Place	13026400009585	64	Rajouri Garden	15806100018590
1	11	Nehru Place	13026400009015	65	Rajouri Garden	15806100018723
r	12	Nehru Place	13026100177823	66	Rajouri Garden	15806400007319
s	13	Nehru Place	13026100179209	67	Rajouri Garden	15806400007384
	14	Nehru Place	13026100179233	68	Rajouri Garden	15806400007483
r	15	Nehru Place	13026100179621	69	Rajouri Garden	15806400007327
s	16	Nehru Place	13026100179639	70	Rajouri Garden	15806400008176
r	17	Nehru Place	13026100179795	71	Rajouri Garden	15806400007848
1	18	Nehru Place	13026100177989	72	Pitampura	14536100018651
1	19	Nehru Place	13026100179019	73	Pitampura	14536100018669
Н	20	Nehru Place	13026400007688	74	Pitampura	14536100019048
).	21	Nehru Place	13026100179613	75	Pitampura	14536100019345
3	22	Nehru Place	13026400010435	76	Pitampura	14536100018248
7	23	Nehru Place	13026100165638	77	Shivalik	16776100038840
3	24	Nehru Place	13026100178680	78	Shivalik	16776100038741
3	25	Nehru Place	13026400007639	79	Paschim Vihar	15965600000886
1	26	Nehru Place	13026400009072	80	Janakpuri	23066400001347
4	27	Nehru Place	13026400007704	81	Janakpuri	23066400001354
4	28	Nehru Place	13026400008074	82	Janakpuri	23066400001362
	29	Nehru Place	13026100176908	83	Shalimar Bagh	16806400006856
)	30	Nehru Place	13026100179316	84	Shalimar Bagh	16806400006690
3	31	Greater Kailash II	13606100066561	85	Shalimar Bagh	16806400006708
1	32	Greater Kailash II	13606100067924	86	Shalimar Bagh	16806400007318
Н	33	Greater Kailash II	13606100064517		Shalimar Bagh	16806400006740
4	34	Greater Kailash II	13606100064509	88	Shalimar Bagh	16806400006211
	35	Greater Kailash II	13606100042000	89	Shalimar Bagh	16806600000162
3	36	Greater Kailash II	13606100063113	90	Shalimar Bagh	16806100017500
3	37	Greater Kailash II	13606100067437	91	Shalimar Bagh	16806100017179
3	38	Greater Kailash II	13606100059202	92	Shalimar Bagh	16806400007433
3	39	Greater Kailash II	13606100064129	93	Shalimar Bagh	16806400007532
7	40	Greater Kailash II	13606100066553	94	Shalimar Bagh	16806100017278
1	41	Greater Kailash II	13606100065498	95	Shalimar Bagh	16806400007599
4	42	Greater Kailash II	13606100066678	96	Shalimar Bagh	16806400007581
4	43	Greater Kailash II	13606100067791	97	Shalimar Bagh	16806100017328
	44	Greater Kailash II	13606100067361	1000	Shalimar Bagh	16806100017326
	45	Greater Kailash II	13606100066249	4.14.	Shalimar Bagh	16806100017435
2	46	Rohini	14746100041096	171190	Shalimar Bagh	16806400007565
1	47	Rohini	14746100041583		Shalimar Bagh	16806100016783
1	48	Rohini	14745600001618			16806400007557
4	49	Rohini	14745600001667	102	Shalimar Bagh	1000040000/00/

Plot No. 16, IRCON Tower, 4th Floor, Sector-32, Gurugram-122003

16786400005159

16786400005019

undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under section 13(4) of the said Act read with rule 8 & 9 of the said rules on the dates mentioned against account and amount below.

The Borrower/Guarantor/Mortgagor attention is invited to provisions of section 13(8) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security

Date of Demand Notice

2	BRANCH:- ROHTAK, Haryana 1.Mr Narender S/o Kaptan Singh, 2.Parmila W/o Sh. Narender Kumar 3. Mukesh Kumar S/o Sh. Puran Singh	All that part and parcel of Residential House situated on Plot No. 28, Min North forming part on Khewat No.202 Min Khata No. 272 Min Rect & Killa No. 26/10 Min mouja Kanheli, Ekta Colony, Rohtak having total area of 113.88 Sq. Yards in the name of Smt promila W/o Sh. Narender and bounded as under:-North - 25'0" Gali 20'Wide, South: 25'0" Plot No. 28, East: 41'0" Gali 20' wide, West: 41'0" Plot No. 29	11-11-2022 21-08-2023	Rs. 7,27,689/- due and outstanding as or 11/11/2022 along with future interest, cost expenses and charges
3	BRANCH:- ROHTAK, Haryana 1.Mr. Naresh Kumar S/o Sh. Suraj Bhan, 2.Mrs Sudesh Kumari W/o Naresh Kumar, 3.Mr. Madan Gopal S/o Bharat Singh	All that part and parcel of the Residential house Situated at Plot No.897, Sector 2(Part), Huda, Rohtak-124001 having total area of Area 216.30 Sq Yard in the name of Smt. Sudesh Kumari W/o Sh. Naresh Kumar & Sh. Naresh Kumar S/o Sh. Suraj Bhan, Bounded as: North - Plot No. 898, South: Plot No. 896, East - Plot No. 910, West - 10.30 meter wide Road	02-05-2023 21-08-2023	Rs. 38,37,258/- due and outstanding as or 02/05/2023 along with future interest, cost expenses and charges.
4	Co (Proprietor:-Smt. Murti Devi w/o Satbir Singh), 2. Smt. Murti Devi w/o Satbir Singh, 3. Sh. Satbir Singh S/o Randhir Singh	(1) Commercial Shop No.20 Situated at New Water Works, New Grain Market, Kalanaur, Distt. – Rohtak having area of 188.89 Sq yards and Boundaries are as under:- North-85'-0'/Shop No.21, South: 85'-0'/Shop No.19, East: 20'-0'/Fadd+Road, West: 20'-0'/Road (2) Booth No.3, Near Tikana Sati Bhai Sai Dass, New Grain Market, Kalanaur Dist-Rohtak having area of 62.50 Sq yds and Boundaries are as under:-North-Booth of other, 15'-0' (Width), South: Phar+ Road, k 15'-0', East: Constd. Booth No.22, 37'6' (Length), West: Compat Stockiet Booth	20-05-2023 16-08-2023	Rs. 19,11,709/- due and outstanding as or 20/05/2023 along with future interest, cost expenses and charges.

Date: 21-08-2023, Place: Rohtak

New Delhi

Authorised Officer, Indian Bank

FEDERAL BANK

Loan A/c. No

Notice is hereby given for the information of all concerned that Gold Ornaments

15456100046900 16786400004616

1 Dwarka

03 Westend Colony 50 Punjabi Bagh 16786400001273 104 Westend Colony 51 Punjabi Bagh 16786400004251

> 16786400004814 107 Green Park 19116400004050 Branch Head. (The Federal Bank Ltd.)

105 Green Park

106 Green Park

11946100068817

11946100068346

19116400003326

19116100011488